



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक**

साइरियल प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 22, शुक्रवार, शके 1941—सितम्बर 13, 2019

Bhadra 22, Friday, Saka 1941—September 13, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

Jaipur, September 12, 2019

**F.10 (Elec) LSG/19/9945** :-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Jhalrapatan has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Jhalrapatan. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,

**Joint Secretary to Government**

कार्यालय नगरपालिका झालरापाटन जिला झालावाड राज.

प्रोफार्मा- क

वार्ड नं	वार्ड का विवरण
01	गिन्दौर गाव घाटी के नीचे पाटन से झालावाड की ओर परिषद् सीमा से लगवा बरसाती नाला उत्तर से दक्षिण की ओर के सहारे झालावाड सहकार भवन से संजीवनी अस्पताल लेते हुए ,उसी लाईन की कृषि भूमि आबादी व सी.सी. रोड आम रास्ता पश्चिम दिशा की ओर उत्तर दिशा की कृषि भूमि आबादी लेते हुए, संजीवनी अस्पताल के पीछे अरिहन्त कालोनी की समस्त आबादी लेते हुए सहकार भवन के पीछे से बरसाती नाले के पास नगरपरिषद् झालावाड की सीमा से लगवा नगरपालिका क्षेत्र झालरापाटन की राजस्व सीमा को लेते हुए गुडागावडी की तरफ आम रास्ते को शामिल करते हुए रेलवे ट्रैक तक। एवं नगरपालिका क्षेत्र में वन क्षेत्र की भूमि उत्तर साईड से पूर्व दिशा की ओर रेलवे ट्रैक के सहारे पूर्व दिशा की ओर की आबादी, वेयर हाउस वन विभाग तक। एनएच-12 रोड पर वेयर हाउस वन विभाग नर्सरी लेते हुए अन्डर पास गिन्दौर की पुरानी खान व जंगल रोड गिन्दौर तिराहे की समस्त बस्ती शामिल कर डाक बंगला रोड की दोनों तरफ जंगल की ओर पालिका सीमा में रेलवे ट्रैक की समस्त आबादी डाक बंगला रोड पश्चिम दक्षिण दिशा

	नगरपालिका क्षेत्र की वन विभाग भूमि की कच्ची दीवार के सहारे दौलत सिंह झाता के मकान के पीछे की समस्त आबादी लेते हुए आनन्द सोनी, रमेशचन्द शर्मा, देवीलाल शर्मा के मकान मेन रोड पाटन झालावाड़ पर उत्तर दिशा शिव मंदिर राजेश कुमार मेहरा व डाक बंगला रोड के अन्दर रा.उ.प्रा.वि. ,पटवार घर आदि की समस्त आबादी व वापस इसी लाईन में मंदिर श्री रणछोड़ जी व सुरेश रावत तक समस्त बस्तिया शामिल कर बनाया गया है।
02	गिन्दौर गाव मकान रावत साठ से दक्षिण दिशा की ओर नगरपालिका क्षेत्र की वन भूमि महुआ घाटी टेक उत्तरी दिशा वन विभाग की कच्ची दीवार के सहारे कियोस्क दुकाने लेते हुए पहाड़ी पर स्थित जैन समाज की जूनी नसिया जी वापस कियोस्क दुकाने, वनपाल नाका, शारदा भवन, JVVNL पंचायत समिति परिसर आबादी ,कियोस्क लेते हुए, पुलिस थान झालरापाटन, जलदाय विभाग से भवानीमण्डी रोड पर रजिस्ट्रार कार्यालय, तहसील, सदर पुलिस थाना, कृषि उपजमण्डी की समस्त आबादी इसी भूमि रोड पर उत्तर दिशा की भूमि रीको इण्डस्ट्रीज एरिया का समस्त भाग नगरपालिका झालरापाटन सीमा रलायता रोड पर रेलवे अण्डर पास से तक वापस पूर्व दक्षिण दिशा तालाब की बस्ती लेते हुए पाटन की ओर भवानीमण्डी रोड पर वसुन्धरा कालोनी कच्ची बस्ती चुंगी नाका तक की तालाब किनारे तक बसी समस्त आबादी भूमि शामिल कर बनाया गया है।
03	चुंगी नाका के पश्चात् पाटन की ओर भवानीमण्डी रोड दक्षिण दिशा में गली नुक्कड मकान को लेते हुए तालाब की तरफ की समस्त लाईन को शामिल कर पाटन की ओर वसुन्धरा कालोनी कच्ची बस्ती गैस गोदाम भवानीमण्डी रोड से सीधा बिजली विभाग को वेयर हाउस रीको क्षेत्र पर कोल्ड स्टोरेज के सामने की गली नुक्कड से मन्ना जी की बगीची सहित शामिल कर कच्ची बस्ती में वाकिंग ट्रेक के सहारे पूनमचन्द प्रजापति के ईट भट्टे तक व गुरुद्वारा के पिछे की झोपड़ियाँ ,मकान झोपड़ियाँ शामिल कर वापस धोबियों की माताजी की ओर बादाम बाई के मकान से वेयर हाउस के पीछे से गली को शामिल कर कोल्ड स्टोरेज के सामने भवानीमण्डी मेन रोड गली नुक्कड तक की समस्त आबादी शामिल कर बनाया गया है।
04	गोमती सागर योजना से पहले RSEB आफिस गोदाम के बाद से रीको इण्डस्ट्रीज नामदेव आयल मील के बाद गोमती सागर कालोनी में प्लाट नं 1 बालाजी टेक्टर से समस्त गोमती सागर कालोनी शामिल कर बोहरा बगीची एवं सुजान सिंह जी की बिल्डिंग शामिल कर द्वारकाधीश योजना में किरण होटल की दुकान से भवानीमण्डी चैराहे पर दुकान सौगानी जी तक से द्वारकाधीश योजना को शामिल कर द्वारकाधीश की ओर गुरुद्वारा शामिल कर चैपाटी की ओर द्वारकाधीश गेट गणेशबारी तक तथा वापस गणेशबारी गणेश मंदिर से सड़क के पूर्व दिशा की साईड में हर्बल गार्डन रखबचन्द पाटनी की बगीची को

	<p>शामिल कर आगे ऊपर की सड़क के सहारे सहारे प्राईवेट बसस्टेप्ड की दुकाने शामिल कर जलदाय विभाग की टंकी तक से पोस्ट ऑफिस कार्यालय से दुकाने पाठीदार की नगरपालिका की ओर आगे रोड वेज बस स्टेप्ड नुक्कड़ दुकान गोपाल जी नामदेव की दुकान से आगे धोबी के पीछे की ओर मकान रामपाल बैरागी से आगे प्राईवेट बसस्टेप्ड की गली में सलाम भाई के मकान की ओर बाद मकान रमेशचन्द्र गुप्ता (बैंक वाले) तक एवं मकान काबरा जी तक एवं काबरा जी से पूर्व दिशा की ओर भार्गव गली में उत्तर दिशा की लाईन में मकान चांदमल डाल्कुराम जी के मकान नुक्कड़ तक मुख्य रोड बसस्टेप्ड की दुकान घाटिया जी के नुक्कड़ व अन्दर की कोली बस्ती, कुचबन्दा बस्ती शामिल कर वापस मकान नट व धोबी तक एवं मकान पुरन कारपेन्टर (बोहरा जी की दुकान) से पश्चिम की ओर भार्गव गली में भार्गव अस्पताल को शामिल कर आगे पश्चिम की ओर अन्तिम में अजीज पठान से द्वारकाधीश रोड पूर्व दिशा की लाईन गली नुक्कड़ सत्यम् पैलेस तक एवं भगवान शर्मा के मकान तक तथा इससे दक्षिण की ओर सत्यम् पैलेस के पीछे तक एवं इसके पीछे की ओर मकान अमरलाल व रामप्रसाद गुर्जर व धोरे तक की आबादी शामिल कर मकान कौशल्या बाई मेघवाल से आगे की ओर सुलभ शौचालय शामिल कर भैरुलाल मेहर की बगीची पठान बाबा की दरगाह वापस पश्चिम दिशा की ओर नुक्कड़ मकान नरसिंह मोची से पश्चिम गली में मकान कामड आत्मज अमरलाल मेघवाल पूर्व दिशा मकान नारायण धोबी से शंकरलाल कोली तक एवं सामने पूर्व दिशा की ओर दक्षिण की गली में मकान मुन्नी आपा से दक्षिण की ओर की लाईन में लालचन्द्र सत्यनारायण का मकान कोली मोहल्ला शामिल कर श्याम सोनी की तरफ बसस्टेप्ड रोड पर कोली मंदिर शामिल कर आगे दुकान बोहरा जी (पूरन कारपेन्टर वाली) तक एवं पनचक्की से द्वारकाधीश रोड पर नीचे की ओर सुलभ काम्पलेक्स से हरिजन बस्ती में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिजन मोहल्ला, हरिजन बस्ती शामिल कर सम्पूर्ण हरिजन बस्ती मकान, घनश्याम हरिजन, मोतीलाल हरिजन मकान चैथमल जी, गजेन्द्र सिंह हाड़ा की लाईन में दक्षिण दिशा की ओर गली में मकान रामसुखी बाई हरिजन से वापस पनचक्की की ओर विद्यालय तक एवं वापस नाले (धोरा) के सहारे-सहारे मकान शिमला बाई तक बनाया गया है।</p>
05	<p>बसस्टेप्ड रोड पर मकान/दुकान अनवर भाई से दक्षिण दिशा की ओर महादीप ट्रेडर्स का मकान शामिल कर गणपति नृसिंह होम शामिल कर मकान/दुकान नवलकिशोर मोची व पीछे मकान लालचन्द्र सुमन को शामिल कर वापस मोचिया की टेक पर मकान/दुकान रुकैय्या बाई बोहरा से बगीची की बस्ती शामिल कर पेट्रोल पम्प की ओर गणेश जी की छतरी से पेट्रोल पम्प बाद नगर सेठ राजकुमार वैद्य पूर्व पटवारी से अन्दर की कालोनी शामिल कर टी.वी.एस. शौरम तक से आगे कुन्ड व मंदिर को शामिल कर दुकान</p>

	<p>मटनलाल गुर्जर आगे गिन्टौर गेट तक व गिन्टौर गेट से अन्दर बोहरा जी के मकान से लक्ष्मण धर्मशाला शामिल कर दक्षिण की ओर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तक व इसके पश्चिम की ओर घूमने पर मकान/दुकान इस्माईल भडभूजा से मकान हीरालाल ठेकेदार को शामिल कर पुरोहित जी की गली में पूर्व दिशा के मकानात शामिल कर लक्ष्मण धर्मशाला के पीछे की मोमन गुवाड़ी शामिल कर व गिन्टौर के अन्दर रामप्रसाद जी बोहरा के पीछे सुलभ काम्पलेक्स व उसके पास मकान देवकीनन्दन जी अग्रवाल मकान से पश्चिम की ओर के मकान पुरोहित जी हवेली शामिल कर वापस दक्षिण दिशा की ओर पुरोहित जी की गली में पश्चिम दिशा की लाईन शामिल कर अंजुमन स्कूल नुक्कड़ से भाया मांगीलाल शर्मा का मकान, सुन्दर टाकिज के सामने गली, बाड़ा व मकान चूड़ी वाले यासीन चाचा से नुक्कड़ से मकान मांगीलाल राठौर से द्वारकाधीश रोड पर श्रीनाथ जी की हवेली प्रताप आयल मील तक शामिल कर बनाया गया है।</p>
06	<p>प्रताप आयल मील के बाद से नगारची मोहल्ला, हाथीखाना, द्वारकाधीश परिसर शामिल कर चैतन्य बालाजी लक्ष्मी निवास नीचे की ओर श्रीकृष्ण गौशाला से नगरपालिका गैराज, मंगल टेन्ट हाउस गोदाम शामिल कर नगरपालिका ई.ओ. निवास से सुन्दर टाकिज की ओर मकान श्री हनुमान प्रसाद जी शर्मा से इसी सड़क पर गली नुक्कड़ मकान पोस्ट मास्टर से मकान मोहनलाल चैरसिया तक इससे आगे पीपली चैराहा पर चैथमाता मंदिर मकान ब्राह्मण समाज से पश्चिम दिशा की ओर मंगल टेन्ट हाउस वाला शामिल कर अन्दर गली की दोनों लाईनें शामिल कर मकान माथुर साठो तक व गली रामद्वारा की दोनों लाईनें जिसमें सुन्दर टाकिज का पिछवाड़ा रामद्वारा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय (भूत भवन) शामिल कर मोहनलाल राठौर तक व एस.टी.सी. परिसर स्थित भवन हवेली शामिल कर खाखरे वाले बाबा दरगाह क्षेत्र बाद गोपाल मंदिर गोपालघाट क्षेत्र व वापस ईमली पेड़ से मकान लक्ष्मीनारायण भील से मकान जब्बार भाई व इससे आगे मकान श्री बल्लभ जी सोनी पावर हाउस भवन तक व इसके सामने मकान गजक वाले भैरूलाल माली से मकान भंवर जी नाई की लाईन में मकान नुक्कड़ धर्मन्द्र जैन महाजन से वापस गोपाल घाट की ओर बल्लभ जी सोनी का मकान शामिल कर मकान इकबाल चाचा नुक्कड़ से मकान बिरधीलाल सोनी तक व वापस इकबाल चाचा से राधाकिशन ढोली की ओर नुक्कड़ मकान कुमावत का बाद मकान ड्राईवर चाचा से मकान मोहनलाल कुमावत को शामिल कर मकान सिंह साहब तक शामिल कर बनाया गया है।</p>
07	<p>पुराने पावर हाउस के सामने मकान बेटरी मराठा से पूर्व की ओर अन्दर गली भीलों की कुईया वाली शामिल कर वापस बाहर मकान बिरधीचंद सोनी से मकान कुमावत शामिल कर कसारा मंदिर चैराहे तक मकान गोपाललाल पोरवाल तक से दक्षिण की ओर रणछोड मंदिर शामिल कर नारायण टाकिज की ओर मंदिर केसरिया नाथ जैन मंदिर से अन्दर</p>

	<p>गली में उत्तर की लाईन शामिल कर नुक्कड़ मकान शर्मा जी से उत्तर की ओर मोहनलाल जी का मकान शामिल कर श्रृंगार गली के मकानात् शामिल कर वापस मकान डालचन्द/मदनलाल धोबी तक व इससे आगे सुलभ काम्पलेक्स की ओर मकान मोहनलाल नाथ नुक्कड़ तक व इससे आगे उत्तर की ओर की पूर्व की दिशा की लाईन शामिल कर मकान बेटरी मराठा से पुराना पावर हाउस से दक्षिण की और पश्चिम दिशा की लाईन के मकानात् मकान राधेश्याम कोली से ईमली गेट तक बाद इसके सामने मकान गुलाब बाई राठौर से सड़क के सहारे सहारे पूर्व दिशा की तरफ बड़ती चबूतरा की मकान गोपाल जी पोरवाल शामिल कर मकान सुरजमल जी पोरवाल तक व इससे उत्तर की ओर लाईन में मकान तितरी वाले पटेल को शामिल कर मकान गोपाल पोरवाल (न.पा.वाले) तक इससे अन्दर गली में मकान सोनी जी की लाईन में मकान देवीलाल जी गाड़ी वाले का दक्षिण की गली की दोनों लाईनें शामिल कर सामने मकान नगरपालिका मूलचन्द सिंधी वाला से वापस पश्चिम की ओर मकान घनश्याम राठौर चक्की वाले से वापस ईमली गेट की ओर मकान गुलाब बाई राठौर तक का समस्त भाग शामिल कर बनाया गया है।</p>
08	<p>ईमली गेट बाहर शनि मंदिर की ओर बनी बस्ती पश्चिम दिशा आदर्श विद्या मंदिर शामिल कर समस्त त्रिवेणी नगर कालोनी की दोनों लाईनें शामिल कर जयनिवास बाग शामिल कर कब्रस्तान की ओर पाल के सहारे शिवमंदिर तक वापस दोनों कब्रस्तान की ओर कब्रस्तान ऐरिया लेते हुए तालाब पर बनी पुलिया पार कर कुमावत की कृषि भूमि पर स्थित गोमती नगर शामिल कर साइन्स पार्क से आगे उम्मेदपुरा गांव परिक्रमा मार्ग पर रेलवे पास (रलायता रोड) पर रेलवे अण्डर पार्क तक रपट नगरपालिका सीमा तक वापस उद्यानिकी व वानिकी महाविद्यालय खानपुरिया रोड पर आवासीय छात्रावास, पुलिस टैनिंग सेन्टर, कृष्णा विहार नाकोड़ा नगर, न्यायालय, पंजाब नेशनल बैंक का किसान प्रशिक्षण केन्द्र व नगरपालिका सीमा को लेते हुए खानपुरिया, उण्डल निमोदा ग्राम की राजस्व भूमि छोड़कर पालिका सीमा की समस्त आबादी को लेते हुए वापस निमोदा रोड पर कृषि महाविद्यालय व नगरपालिका झालरापाटन की राजस्व सीमा निमोदा रोड पर समस्त राजकीय विभाग शामिल करते हुए वापस ईमली गेट मकान सुपात्तर जी पोरवाल से गली नुक्कड़ राजेश जी शर्मा मकान एवं इसके आगे दक्षिण की ओर सड़क के सहारे सहारे हाई स्कूल रोड रवीन्द्र नाथ सच्चर (स्वर्ण सदन) व इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मकान श्री नन्ना भाई पिंजारा से हासिर भाई से मकान श्री शफी भाई/सलीम भाई के मकान से मोहनलाल जी राठौर का बाड़ा शामिल कर मकान सुपात्तर जी तक की समस्त आबादी को शामिल कर बनाया गया है।</p>
09	<p>ईमली गेट के पास मंदिर स्वर्णकार मंदिर से पूर्व की ओर मकान श्री मांगीलाल गुर्जर</p>

	<p>बोरदा वाला से अन्दर गली मुकेरी मोहल्ला की ओर मस्जिद मुकेरियान तक आगे मकान चैथमल जी नाथ से आगे मकान श्री पूरीलाल काछी से पश्चिम की और मकान सरदार व नुक्कड़ मकान रमेशचन्द माली से आगे उत्तर की ओर पूर्व की लाईन शामिल कर मकान लुहारान् से आगे मंदिर स्वर्णकार समाज से ईमली गेट की घुघस के पास से मकान रामनारायण लुहार से दक्षिण की ओर सड़क के सहारे सहारे पश्चिम की लाईन के मकान शामिल कर पानी की टंकी हाई स्कूल ग्राउण्ड के पास मकान परमानन्द भारती तक एवं उससे आगे बुर्ज की ओर इसी लाईन में बने हुए मकान शामिल कर मकान श्री सतीम सोयत वाला तक वापस नीचे पानी की टंकी के सामने मकान श्री फूलचन्द माली से पूर्व दिशा की ओर दक्षिण दिशा के मकान वाली लाईन शामिल कर मकान नन्दलाल जी ठेकेदार को शामिल कर मकान जगदीश जी गेहू वाले तक की समस्त मकानात आबादी को शामिल कर बनाया गया है।</p>
10	<p>हाईस्कूल रोड मंदिर नाई समाज (शिवमंदिर) से पूर्व की ओर हाईस्कूल शामिल कर मकान जगदीश माली से गणेश जी छतरी की ओर मकान मेठी जी तक एवं इससे आगे लंकागेट की ओर मस्जिद लुहारान् शामिल कर एवं इसके पीछे गली की दोनों लाईनें शामिल कर वापस लंकागेट तक एवं इससे बाहर चुंगी नाका की तरफ वाली लाईन कृषि भूमि शामिल कर बोहरा बगीची शामिल कर धोरे के पास किरण का मकान व अन्दर गली में कृषि स्थित क्षेत्र वापस उज्जैन रोड पर पश्चिम दिशा की लाईन के मकानात् शामिल कर मेला ग्राउण्ड में कृषि भूमि मेला सराय (R.A.C. बटालियन सेन्टर) पशु चिकित्सालय बाद जलदाय विभाग पम्प हाउस मूँडलिया खेड़ी बांध तक तथा चन्द्रभागा नदी पुलिया बाद उज्जैन रोड पर पश्चिम दिशा के क्षेत्र वृद्धाश्रम एवं हाट बाजार शामिल कर शकूंधार मंदिर से कुम्हारों की ईट भट्टा व बस्ती शामिल कर बिरियाखेड़ी रास्ते के मकानात् व तालाब के किनारे सालरी पंचायत राजस्व सीमा को छोड़कर नगरपालिका झालरापाटन की राजस्व सीमा को लेते हुए सुनेल रोड पर चंदलोई बिरियाखेड़ी सालरी पंचायत की सीमा छोड़कर नगरपालिका क्षेत्र की राजस्व सीमा लेते हुए कालोनियां व इंजीनियरिंग कालेज, धनवन्तरी नर्सरी, सेटेलाईट अस्पताल से इन्दौर रोड की ओर जंवरिया खाल, सरस दूध डेयरी तक व जंवरिया खाल के किनारे बसी बस्ती ग्राम गोविन्दपुरा की राजस्व भूमि को छोड़ते हुए नगरपालिका क्षेत्र की समस्त राजस्व सीमा की आबादी व उज्जैन रोड पर पूर्वज रिसोर्ट (धीरज पाटीदार) से पाटन की ओर राजस्व कृषि भूमि जवंरिया खाल के किनारे किनारे पूर्व दिशा की आबादी शामिल करते हुए भूतेश्वर महादेव मंदिर से चन्द्रभागा नदी के किनारे किनारे पशुपतिनाथ मंदिर की ओर उज्जैन रोड पर बसी कच्ची बस्ती, ऐश्वर्य नगर शामिल कर उज्जैन की ओर धीरज पाटीदार तक व वापस चन्द्रभागा की पुलिया पार जीर्ण वाला बोहरा की कृषि भूमि पर आबाद बस्ती, गाडिया लोहारान् बस्ती एवं इसके पीछे की</p>

	बस्ती शामिल कर घांसीलाल धाकड़ व पाटन की ओर घुमाव लंकागेट की ओर मकान बोहरा बगला से नृसिंह मंदिर तक को शामिल कर बनाया गया है।
11	नृसिंह मंदिर के सामने आम रास्ता कृषि भूमि की पश्चिम दिशा की लाईन चन्द्रभागा नटी तक की समस्त आबादी को शामिल कर बनाया गया है। लंकागेट बाहर स्थित श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर के सामने राजस्व कृषि भूमि की ओर आम रास्ता चन्द्रभागा तक पर कृषि भूमि पर बने मकानात् चन्द्रभागा की ओर की आबादी मय चन्द्रभागा किनारे की राजस्व भूमि पर बने मकानात् पंचकुईयां आदि शामिल करते हुए श्री शीतलेश्वर महादेव मंदिर से राम मंदिर एवं कृषि भूमि पर बने मकानात् लेते हुए वापस चन्द्रभागा तिराहे पर जे.के. परिणय प्लाजा से उसी लाईन में लंकागेट की ओर शहर पना व उज्जैन रोड के मध्य की संकट मोचन हनुमान मंदिर तक शीतला माता मंदिर तक की समस्त आबादी को शामिल कर व लंकागेट परिसर के अन्दर घुघस, रामप्रसाद नमक वाले से सरदार कृपाल सिंह जी की दोनों लाईनों शामिल कर तेलियों की कुईयां तक एवं कासम भाई घड़ी वाले की दुकान से लुहार मोहल्ले की दाई लाईन जिसमें शौकत मोलाना का मकान एवं मदनलाल जी लुहार के मकान को शामिल करते हुए कालूलाल नागर की दुकान से कुतुबुद्धीन बोहरे से बालचन्द गुर्जर के मकान को लेते हुए खामोरा जी के मकान को शामिल कर यादव बस्ती, किंग इमानुअल स्कूल की लाईन शामिल कर मोहनलाल राठौर की दुकान से वापस कमरू भाई की दुकान तक व कमरू भाई के दुकान के सामने गणेश जी की छतरी से बड़ा मंदिर की ओर छोटूलाल जी राठौर से ममता गली नुक्कड़ मकान मोहनलाल धोबी से अन्दर ममता गली बाई और की लाईन को शामिल कर ठाकुर सा० की गली नुक्कड़ मकान श्री गयासुद्धीन से निसाद भाई मन्सूरी से हाई स्कूल की ओर लुहार गली की दोनों गली शामिल कर गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय नगरपालिका भवन मुबारिक भाई का मकान शामिल कर दौलत खत्री के मकान आगे हाई स्कूल रोड पर गणेश जी की छतरी तक की समस्त आबादी को शामिल कर बनाया गया है।
12	नन्दलाल राठौर चक्की वाले के मकान से भैंसापाड़ा रोड पर संत तुलसी पब्लिक स्कूल एवं मकान राधेश्याम जी पटवारी से के मकान को लेते हुए इमाम बाड़ा बस्ती हाईस्कूल के सामने की गली नुक्कड़ मकान चांद भाई बाद ओमप्रकाश सेव वाला बाद मकान आमिल खां, याकूब खां को शामिल कर शंकर सिंधी का मकान शामिल कर ठाकुर सा० की गलियों की बस्ती शामिल कर वापस मकान नेमीचन्द निगम के मकान से नन्दलाल राठौर चक्की वाले व लंकागेट रोड ममता गली नुक्कड़ मकान घनश्याम बिडला से बड़ा मंदिर की ओर शकूर जी चूड़ी वाले को शामिल कर जैन स्थानक से मदन जी सोनी के मकान को शामिल करते हुए बरड़ी का चबूतरा माणकचन्द जी जैन के मकान तक व दक्षिण की ओर सड़क के सहारे सहारे मकान अम्बर आईस फैक्ट्री से मकान तक व अन्दर गली मकान फ्याज

	<p>भाई से शास्त्री जी का मकान शामिल कर गली के नुक्कड़ मकान श्याम जी सोनी तक एवं बाहर मकान घनश्याम राठौर तक व तथा बड़ा मंदिर के उत्तर दिशा के कोने वाला मकान बोहरा जिसमें सुनील पान वाले की दुकान से रमेशचन्द गुप्ता एडवोकेट के मकान को शामिल कर बसंतीलाल चैरसिया की दुकान नुक्कड़ शामिल कर पन्नालाल जी अग्रवाल मिल वाले का मकान शामिल कर राजकुमार गोलेच्छा मकान तक एवं इससे आगे नारायण टाकिज की ओर विक्यामल सिंधी के मकान तक की समस्त आबादी को शामिल कर बनाया गया है।</p>
13	<p>बड़े मंदिर के बगल में उत्तर की ओर दुकान सुनील पान वाले के पास अकलेरा स्टील वाले की दुकान से उत्तर की ओर सड़क के सहारे-सहारे श्याम राठौर पान वाले की दुकान (जैन मंदिर की) तरफ तथा अन्दर गली में जैन मंदिर शामिल कर विक्यामल सिंधी के मकान से पूर्व गोपाल पोरवाल के मकान तक एवं सामने राजकुमार जैन आईस फैक्ट्री वाले से बैठा बालाजी की ओर सोगानी भवन शामिल कर बोहरा बाखल शामिल कर मकान जैन समाज (कागला जी का मंदिर) व एस.टी.सी. गेट से मकान पूनमचन्द खाती से पूर्व की ओर मकान प्रभूलाल खाती टाक से राम जी की गली के अन्दर मकान शिव जी पेन्टर के पास की गली शामिल कर सीधा राम जी की गली में मकान सरजीत कौर पंजाबी के मकान तक एवं अखाड़ा की गली की ओर मदनलाल रावल का मकान शामिल कर अन्दर की गली शामिल कर मकान वैद्यनाथ जमादार तक नुक्कड़ एवं आगे अखाड़ा की ओर मकान मोटी तक व अखाड़ा शामिल कर वापस मकान कैलाश जी कम्पाउन्डर से मकान पंडित गिरधर शर्मा तक एवं जमादार की गली की दोनों साईड को लेते हुए मकान मदन जी जमादार से गली में मकान ब्रह्मानन्द जी पाटीदार का शामिल कर मुख्य रोड पर मकान बलजीत राठौर से संजय पेरस/गोपालघाट की ओर मकान राधेश्याम कुमावत नुक्कड़ तक से आगे मकान जवाहर गुप्ता से सामने मंदिर कुमावत शामिल कर मकान मुंशी जी व वैद्य तक एवं अखाड़ा शामिल कर मकान कैलाश जी कम्पाउन्डर तक की चतुर सीमा में आगे मकान को शामिल कर आगे मकान राम जी की गली में मकान सत्यनारायण सोनी से मकान कन्हैयालाल/रामस्वरूप सोनी से राम जी की गली नुक्कड़ मकान बाद बालचन्द जी राठौर चक्की वाले का शामिल का मकान नुक्कड़ गोविन्द सोनी तक व अन्दर गली डां. भूरामल जी की दोनों लाईनें शामिल कर मकान विमल जैन रटलाई वाला नुक्कड़ तक शामिल कर बनाया गया है।</p>
14	<p>संजय पेस की ओर मकान माहेश्वरी बाद मकान राजेन्द्र गुप्ता नुक्कड़ पंडित गिरधर शर्मा का से अन्दर गली में मकान दीक्षित जी बाद मकान गुजर से मकान रखबचन्द पोरवाल से भीलो की गुवाड़ी लेते हुए गायत्री निवास शामिल कर मकान नन्दलाल जी तहसीलदार सा० तक से मकान रामकिशन जी पटवारी व नारायण टाकिज के सामने कैलाश जी जैन से</p>

	<p>मंदिर कसारा तक व चैपडिया की ओर मंदिर राम जी शामिल कर मकान नुक्कड़ कासलीवाल जी की दुकाने तक बनाया तथा चैपडिया से बड़ा मंदिर की ओर दुकान लालचन्द जी कुमावत गली नुक्कड़ तक बनाया गया है एवं मकान/दुकान नेमीचन्द तम्बोली से नमक की कुईयां को शामिल कर मकान नुक्कड़ मोहनदास व कसारा बाजार में मकान सुदामामल सिंधी से मकान कल्याण जी मंत्री तक आगे इसी लाईन मकान भट्ट जी तक एवक मकान नेमीचन्द जी जैन (सुराणा) तक एवं जाडली लखारी की गली के अन्दर मकान शांतिनाथ मंदिर तक एवं गली धी वाली में की दोनों लाईनें शामिल कर मुख्य रोड पर मकान/दुकान लालचन्द जी अग्रवाल से रखबचन्द भण्डारी मकान शामिल कर व गोपीलाल जी का कुण्ड की बस्ती शामिल कर दुकान बाफना जी (आर्यसमाज की दुकान) तक बनाया गया है।</p>
15	<p>मुख्य रोड पर धी वाली गली नुक्कड़ गोपाल जी दुकान (द्वारकाधीश मंदिर की) सोनी से दुकान दुग्गड़ को शामिल कर पीपली चैराहे तक दुकान मकान इस्माईल बोहरा झालावाड मेडिकल स्टोर तक व इससे आगे एस.टी.सी. गेट की ओर मकान मंदिर धीमर माली समाज नुक्कड़ से अन्दर गली राम जी की में पीछे की गली शामिल कर मकान बिट्ठल प्रसाद से नृसिंह मंदिर नुक्कड़ तक एवं अन्दर गली में मकान बालचन्द सिंधी नुक्कड़ से आगे मकान श्री रायसिंह जी गुजर तक गली नुक्कड़ व सेन्ट्रल बैंक के सामने मकान पालीवाल, सीता मालन से गली नुक्कड़ मकान शम्भुदयाल शर्मा से चन्दा प्रभु जी की गली में सोने वाली सेठानी के मकान को शामिल कर मकान/दुकान कमल/महेन्द्र सुराणा तक व सामने गणेश जी के पास की दुकान से कल्याण जी मंत्री के मकान की और मकान नेमीचन्द जी चांदवाड़ तक डग वाली गली को छोड़ते हुए मकान जीतमल जी चांदवाड़ से मकान रखबचन्द जी कासलीवाल की ओर मकान मंदिर चन्दा प्रभु जी व महेन्द्र कुमार दुग्गड़ कपड़ा वाले से सेठों के चैराहे व पंजाब नेशनल बैंक के सामने शांतिनाथ जी मंदिर की लाईब्ररी (सरस्वती भवन) नगरपालिका कार्यालय की ओर मकान विद्यासागर पालीवाल तक नुक्कड़ पीपली बाजार से चैपडिया की ओर मकान रविचन्द गोयल से नारायण मंदिर की और मकान भौंवरलाल जी वैद्य तक व डग वाली गली की दोनों लाईनें शामिल कर वापस दुकान गुप्ता रेडियो से पुरानी नगरपालिका भवन व अन्दर का ढपोला शामिल कर मकान कस्तूरचन्द जी हलवाई व दुकान नुक्कड़ फूलचन्द जी मंत्री चैपडिया से बजाज खाना में दुकान मकान नीलगर व नगर सेठ की दुकान नुक्कड़ (गली सोने वाली सेठानी की) तक बनाया गया है।</p>
16	<p>मकान नेमीचन्द जी अग्रवाल सेठों का चैराहे से शांतिनाथ मंदिर रोड माणकचंद डिस्पैसरी नुक्कड़ से अन्दर माणकचंद डिस्पैसरी के पीछे वाली की दोनों लाईनों को शामिल कर विनोद भवन के पीछे की गली दोनों लाईन शामिल कर एवं पेट्रोल पम्प वाले की दोनों</p>

	<p>लाईने शामिल कर मकान मनोहरलाल जी जैन मकान से मकान हुकमचन्द जी मण्डावर वाले का नुक्कड़ से विनोद भवन शामिल कर माणकचंद डिस्पेंसरी तक तथा सड़क के पश्चिम दिशा की लाईन सेठो का चैराहा मकान फूलचन्द जी अग्रवाल से शांतिनाथ ढोपोला एवं मंदिर शांतिनाथ शामिल कर मकान विमल चांदवाड (पुराना टेलीफोन एक्सचेन्ज) व चैपडिया से दुकान कन्हैयालाल तम्बोली से नुक्कड़ दुकान तहसील की गली पन्नालाल सुनेलिया से मकान शांतिनाथ मंदिर व सामने दुकान/मकान शांतिलाल जी लुहाडिया से पुराने तहसील कार्यालय की और मकान शिखरचन्द जी पाटनी को शामिल कर सामने होम्यापैथिक/आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी एवं पटवार घर को शामिल कर मकान अशोक/छाजू पाटनी नुक्कड़ से मकान डांगी जी तक की दोनों लाईनें शामिल कर दुकान नगर सेठ जी मुख्य रोड बजाज खाना में से चैपडिया की और दुकान कल्याण जी मंत्री व नोपडा तक व मेन रोड पर तहसील गली नुक्कड़ दुकान करमचन्द सिंधी के टकसाल की गली के अन्दर दोनों साईडें शामिल कर नगर सेठ जी का व नगर सेठ जी का ढपोले की दोनों लाईनें शामिल कर मकान/दुकान नुक्कड़ दुलीचन्द जी अग्रवाल से कुईयां की और दुकान मकान मकबूल बडबूजा तक नुक्कड़ से सब्जीमंडी बाजार में बड़ा मंदिर के सामने दुकान ताराचन्द चैथमल सिंधी तक व सहकारी बैंक भवन को शामिल कर मोहनलाल जी राठौर की दुकान व पुरानी धानमंडी से नगर सेठ जी के ढपोला नुक्कड़ मकान/दुकान देवीलाल राठौर चक्की वाले से गब्बा जी का ढपोला की दोनों लाईन को शामिल कर सेठों के चोराहे पर राम मेढी नुक्कड़ तक से बजाज खाने की और मकान/दुकान अशोक पाटनी/छाजू जी तक बनाया गया है।</p>
17	<p>बड़े मंदिर के सामने गोपाल जी हलवाई की दुकान, मंदिर बालाजी से लंकागेट की और हुसैनी शिफाखाना की गली नुक्कड़ मकान श्री शब्दीर भाई बाग वाले का फखीरी मार्केट से अन्दर गली में बाई और मकान नुक्कड़ सामने की लाईन में मकान फखरुर्रहीन भाई एवं सैफी मेडिकल व अब्बास भाई एटलस वाले का मकान से अन्दर पतली गली में नुक्कड़ मकान नुसुरुद्दीन जी झरी वाले से मकान इब्राहिम भाई तक एवं बोहरा हाल मस्जिद शामिल कर बोहरा हाल नुक्कड़ गली से बाहर सिलावट मोहल्ला मेन रोड पर सब्जीमण्डी कुईयां की ओर दुकाने बोहरा समाज की सब्जीमण्डी में बड़े मंदिर की ओर महादेव जी की गली नुक्कड़ मकान शब्दीर भाई एवं गली के अन्दर मकान शामिल कर दुकान गोपाल जी हलवाई तक की चतुर सीमा में शामिल समस्त इस्लामपुरा की गलियां व लंकागेट रोड पर हुसैनी शिफाखाना की गली नुक्कड़ मकान दाई और मकान फजला भाई मण्डी वाला से अन्दर गली में मकान फिदा हुसैन बोहरा तक बोहरा शिफाखाना की ओर बोहरा शिफाखाना व अन्दर की गली की दोनों लाईनें शामिल कर नुक्कड़ मकान मोहम्मद भाई कपडे वाले का से छोटी गली में आगे सामने मकान मुस्तफा भाई चेचट वाले तक से अजहर भाई</p>

	<p>खुजनेर वाला नुक्कड मकान तक से हातिम भाई दवाई वाले तक गली नुक्कड तक एवं सिलावट मोहल्ला मेन रोड पर दाई ओर लोटी सैकण्ड्री स्कूल भवन की ओर शामिल कर नुक्कड गली देवनारायण नुक्कड मकान गोरथन जी गौड तक एवं गली के नुक्कड मकान खान भाई असनावर वाले तक से मकान अकबर भाई नाकेदार से मंदिर देवनारायण शामिल कर आगे गली नुक्कड मकान जाफर भाई ईश्हाक भाई का से मेन रोड बड़ा मंदिर की ओर आगे मंदिर शामिल कर बोहरा शिफाखाना की गली नुक्कड मकान फजला भाई मंडी वाला तक की चतुर सीमा में शामिल समस्त गलियां मकानात व देवनारायण की गली नुक्कड मकान/ईश्हाक भाई पिंजारा चक्की वाले से लंकागेट की ओर दुकान/मकान अयोध्या बाई से लुहार गली में मकान पिंजारा से अन्दर की पिंजारा गली/रेण वाली दोनों लाईन शामिल कर वापस लुहार गली में मकान नुक्कड जाटो के मंदिर के सामने का मकान बोहरा जी तक की समस्त आबादी को शामिल कर बनाया गया है।</p>
18	<p>गोपाल जी पोरवाल से सिलावट मोहल्ला में धाकडो के मंदिर की आगे मकान श्री सुदामामल जी नाई तक देवनारायण मंदिर की ओर बाई और की लाईन में पन्ना जी माली का मकान शामिल कर बाई और की लाईन में दुकान ईश्हाक भाई चक्की वाले तक की चतुर सीमा में समस्त गलियाँ को शामिल करते हुए व सब्जीमण्डी कुईयां से पूरब की लाईन में मकान श्री फरजदक हुसैन एवं हुसैन भाई एवं मामा जी बोहरा तक बोहरा बाखल शामिल कर ई.एस.पाटन वाला मकान की ओर सिलावट मोहल्ले की ओर जाटो के मंदिर तक एवं जाटो के मंदिर से गुजर मोहल्ले की ओर मदन जी वर्मा के मकान तक की आबादी शामिल कर बनाया गया है।</p>
19	<p>मदन जी वर्मा के मकान के पास के मकान श्री सुखलाल जी गुजर देवीलाल काढी से शनि मंदिर की ओर गुर्जर मोहल्ला की गली में ओम जी शर्मा/अद्यापक के मकान की लाईन में मकान सी.पी. टेलर तक व इसी लाईन में बाई और नाईयों का मंदिर शामिल कर मकान श्री फरजदक हुसैन एवं हुसैन भाई एवं मामा जी बोहरा वाला तक व जाटो के मंदिर के सामने नारायण जी नागर नुक्कड मकान से पूर्व की ओर गली गुर्जर मोहल्ला में छोटी गली शामिल कर मकान परमानंद गुर्जर धन्ना जी धाकड से दाहिने ओर की लाईन में मकान बरदीलाल गुर्जर से अन्दर की गली शहर कोट की ओर हरिराम गुर्जर तक एवं सामने गली मकान भागीरथ से अन्दर गली में शहर कोट पर मकान लक्ष्मीनारायण जी तक से पश्चिम की ओर शहर कोट के सहारे सहारे तेलियाँ की कुईयां की ओर मकान राजू/जमना राठौर तक एवं दाहिने ओर मकान धन्नालाल जी धाकड तक जाटो के मंदिर के सामने तक की चतुर सीमा के समस्त भाग को शामिल कर व शनि मंदिर के सामने गली नुक्कड मकान शशिकला जोधराज सोनी के मकान से देवीलाल कम्पाउन्डर के मकान तक एवं जटाशंकर की गली में बाई और मकान लक्ष्मीकांत जी शर्मा को शामिल कर मकान</p>

	गली नुक्कड श्री नाथूलाल जी राठौर से मकान धुलीलाल काछी तक एवं गली नुक्कड मकान रमेशचन्द माली तक से नुक्कड मकान मालियान मंदिर गली शामिल कर मकान नुक्कड श्री मांगीलाल सोनी तक व जटाशंकर की गली नुक्कड मकान जगदीश खेमा जी गुर्जर से बाईं ओर मकान श्री मदनलाल धाकड तक से मकान गली नुक्कड से गली देवीसिंह जी व रावला की गली में मकान रामचन्द्र एवं कँवरलाल जी धाकड एवं घांसीलाल धाकड तक की समस्त आबादी को शामिल कर बनाया गया है।
20	घांसीलाल धाकड के पश्चात् से नवरंग धाकड गली नुक्कड तथा कुम्हार मंदिर की ओर जटाशंकर की गली नुक्कड मकान प्रभूलाल जी से अन्दर बाईं ओर की लाईन शामिल कर अन्तिम मकान जगदीश जी गुर्जर तक व काछी मोहल्ला गली नुक्कड हेण्डपम्प से मकान रामचन्द्र काछी से काछी मंदिर की ओर मंदिर काछियान तक से दाहिनी ओर मकान कंवरलाल जी एवं गली की दोनों लाईन शामिल कर मकान नुक्कड मांगीलाल/सालगराम जी गुर्जर तक से दाहिनी ओर गुर्जर मोहल्ला गली में नुक्कड मकान बजरंगलाल गुर्जर तक से गली में दाहिनी ओर बालाराम जी को शामिल कर गली नुक्कड भंवरसिंह भाटी देवीसिंह जी की गली में मकान मांगीलाल जी से इसी लाईन में आगे मकान बालचन्द जी धाकड व मकान चुन्नीलाल जी बाद गली नुक्कड मकान प्रभूलाल पूर्व वार्ड पार्षद तक व नीमबारी सलीम भाई के मकान से शहर कोट के सहारे सहारे भूतिया बुर्ज की ओर इब्राहिम जी एवं मदन जी काछी तक एवं उसके सामने बगीची को शामिल कर घांसीलाल जी काछी रामबाबू से लक्ष्मीनारायण तक इस चतुर सीमा में आये समस्त गली मकान शामिल कर व काछियान मंदिर के सामने पुजारी का मकान से अन्दर गली में मकान भैरुलाल के नुक्कड मकान श्री घांसीलाल धाकड से अन्दर गली में भगवान सिंह गुर्जर से नुक्कड मकान श्री अजीज भाई पठान तक से सुलभ शौचालय बाद गली नुक्कड मकान श्री चुन्नीलाल गुर्जर गाडर वाला से काछी मोहल्ला गली नुक्कड मकान मांगीलाल काछी से काछियान मंदिर पुजारी तक की चतुर सीमा में आई समस्त गलियों की आबादी को शामिल कर बनाया गया है।
21	मकान भगवान सिंह गुर्जर न.पा. वाले के सामने की लाईन में काछियान मकान नुक्कड श्री बालचंद काछी से मकान श्री बजरंगलाल काछी तक से काछी मोहल्ले में दाईं ओर की लाईन में कुम्हार मोहल्ले की ओर गली नुक्कड मकान स्व. बापूलाल प्रजापत से नीमबारी की ओर नुक्कड मकान श्री बाबूलाल/कजोड जी प्रजापत से दाईं ओर की लाईन में नुक्कड मकान कैलाश जी घोड़ी वाले तक की चतुर सीमा में समस्त गलियों को शामिल कर आगे धानमण्डी गली नुक्कड गांव गुरुजी मोहनलाल चन्द्रेश से श्यामलाल जी शर्मा धनराज जैन, लालचन्द जी व्यास सुरजपोल आम रोड से पूर्व बिजलीघर की गली में वापस उत्तरी लाईन लेते हुए गांव गुरुजी का मकान तक पुरानी धानमण्डी नुक्कड मकान प्रहलाद पालीवाल से

	पूर्व मकान गांव गुरुजी तक का समस्त आबादी शामिल कर बनाया गया है।
22	पुरानी धानमण्डी में गांव गुरुजी की गली नुक्कड़ मकान प्रहलाद पालीवाल से सेठो के चैराहे की ओर मकान पांड्या जी से आगे सेठो का चैराहा नुक्कड़ मकान सकलेचा जी से सुरजपोल गेट की ओर भूत भवन गली नुक्कड़ मकान, दुकान गायत्री फ्लेक्स तक व पुरानी धानमण्डी मेन रोड गली नुक्कड़ गांव गुरु जी पर मकान कन्हैयालाल जी शर्मा रबड उस्ताद से पुरानी सब्जीमण्डी कुईयां की ओर जूना मंदिर आटा चक्की, किराना दुकान नुक्कड़ मकान डा. अशरत अली से कुम्हार मोहल्ले में नीमबारी मोमन गली नुक्कड़ पर गोकुल जी शर्मा, राजेन्द्र कुमार, राधेश्याम, पुरुषोत्तम तक व सेठो के चैराहे से सुरजपोल मेन रोड पर भूत भवन की गली नुक्कड़ श्याम मनोहर शर्मा से सुरजपोल गेट की ओर दक्षिण दिशा की लाईन में मोहनलाल राठौर (जलदाय विभाग) से सुरजपोल गेट मोहनलाल राठौर ठेकेदार आवास दुकान व इमाम भाई से शहर कोट के सहारे मस्जिद सिपाहीयान से नीमबारी की ओर शहर कोट के सहारे सहारे मकान ख्वाज मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद व कुम्हार मोहल्ला मेन रोड पर बड़ा मंदिर की ओर उत्तर दिशा की लाईन में अशफाक भाई कुरेशी से कुम्हारो के मंदिर को शामिल कर मोमन गली नुक्कड़ मकान लोकेश शर्मा से पूर्व दिशा की गली अन्दर मोमनान लेते हुए गली नुक्कड़ मकान आजाद खां से तलाई चैक की ओर की गली की दोनों लाईनों लेते हुए मकान खलील अहमद छप्पन मोहम्मद, इश्हाक भाई चैक में नीम के पेड़ के पास की लाईन को लेते हुए मकान हबीब भाई व इनायत हुसैन से नीमबारी की ओर दुर्गप्रसाद प्रजापत तक की समस्त आबादी को शामिल कर बनाया गया है।
23	कुम्हार मोहल्ले में गली नुक्कड़ मोमनान की मकान कमला बाई से अन्दर गली मोमनान की पश्चिम दिशा की लाईन के समस्त मकान व मस्जिद मोमनान के आस पास की समस्त आबादी को शामिल कर मस्जिद से बाहर चैक की ओर पश्चिम दिशा लतीफ भाई मोहम्मद अकबर से साबिर भाई तलाई चैक के हेण्डपम्प के पास दुकान अण्डे वाले आदि साईकिल पंचर की दुकान व नुक्कड़ की दुकान तक व सेठो के चैराहे से सुरजपोल गेट की ओर मकान मोहन जी सोनी एडीएम एवं मकान दौलत जी गली नुक्कड़ छीपा मोहल्ला से रामू जी मण्डावर वाले के मकान तक व अन्दर गली में पदम जी दलाल के मकान से स्कूल तक एवं इसके सामने महावीर जी दुर्गड़ से वापस गली नुक्कड़ मकान देवेन्द्र दुर्गड़ तक से छीपा मोहल्ला में उत्तर की ओर मकान कृष्ण सिंह हाड़ा तक व अन्दर गली भंवरलाल जी वैद्य को शामिल कर गली नुक्कड़ मकान शफी मोहम्मद जी मास्टर से मकान रामकल्याण जी शर्मा कानूनगो तक एवं इसके आगे महुआबारी, शीतला माता मंदिर रोड पर मकान श्री गोपाल जी छीपा, कैलाश जी चाय वाला गली नुक्कड़ (विनोद भवन के पीछे) वाली तक व वापस मकान मंदिर छीपान से छीपा मोहल्ला की ओर मकान श्रीराम

	<p>जी छोपा से मकान रामगोपाल जी कानूनगो तक व सब्जीमण्डी की तरफ नीलगरान मस्जिद छोपा मंदिर महुआबारी से सेन्ट जोन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल तेलियान मंदिर परिसर की आबादी लेते हुए पाटनी भवन, जूना कमरा, पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से पूर्व दिशा की लाईन लेते हुए नगरपालिका कार्यालय के सामने से न्यारगिर मोहल्ला मस्जिद न्यारगिरान, राजकीय बालचन्द चिकित्सालय, गिन्दौर गेट अन्दर की पूर्व दिशा की समस्त आबादी को शामिल कर बनाया गया है।</p>
24	<p>महुआबारी अन्दर की दक्षिण दिशा की लाईन लक्ष्मण जी माली का मकान से तेलियान मंदिर की ओर रामगोपाल जी कानूनगो से मकान पंडित जी, गोकुल प्रसाद जी शर्मा से तेलियान मंदिर परिसर की आबादी को लेते हुए मण्डावर वाले के सामने की लाईन में मकान मोहम्मद अखलाक गौरी से नारायण सिंह कम्पोन्डर के बाद महुआबारी की ओर गली नुक्कड़ से लक्ष्मण की माली तक सब्जीमण्डी की तरफ गली नुक्कड़ मकान छोपा मोहल्ला सुरजपोल रोड छोपा मोहल्ला गली व्यास जी से सुरजपोल दरवाजे की ओर उत्तरी दिशा की लाईन को लेते हुए नई सब्जीमण्डी नुक्कड़ मकान व दुकान बैठक व मंदिर आवास शम्भुदयाल शर्मा से सब्जीमण्डी की पश्चिम दिशा की लाईन को लेते हुए श्री भैरुलाल जी उपाध्याय से पश्चिम दिशा की लाईन मकान लेते हुए उत्तर दिशा की ओर लाईन की गली नुक्कड़ मकान सत्यनारायण मित्तल तक व सब्जीमण्डी में पश्चिम दिशा की आबादी लाईन में मकान श्री सत्यनारायण मित्तल के मकान से छोपा मोहल्ला की ओर पतली गली नुक्कड़ मकान मोहम्मद सलाम खान से उत्तर दिशा नीलगर मस्जिद की ओर नुक्कड़ मकान नन्दनी बाई, मोहम्मद आमीन गौरी से शीतला माता मंदिर व अशोक भील से सब्जीमण्डी की दुकाने, सुलभ काम्पलेक्स, शहर कोट से ऊपर की आबादी शामिल कर शहर कोट पर बने काम्पलेक्स व नीचे सुलभ काम्पलेक्स को लेते हुए कनिता बानो खाली बाड़ा दक्षिण दिशा की ओर उसी लाईन में दौलतराम शर्मा व बैठक इलेक्ट्रोनिक दुकान सुरजपोल दरवाजा तक व सुरजपोल दरवाजा बाहर नीमबारी घुमाव शहर कोट बुर्ज के सामने उत्तर दिशा में लक्ष्मण जी माली उस्ताद की बगीची में बने दुकान मकानात लेते हुए पीडब्ल्यूडी नाका चैकी तक व वापस शहर कोट घुमाऊ बुर्ज भवन बाबा मजार से दक्षिण दिशा में शहर कोट के सहारे सहारे सुरजपोल गेट तक नगरपालिका किरायेदारान् को लेते हुए इसी लाईन में नीमबारी गेट बाहर सुलभ काम्पलेक्स आगे चन्द्रभागा रोड तिराहा जे.के. परिणय प्लाजा तक कृषि भूमि को शामिल कर कृषि भूमि पर बने मकानात् को लेते हुए चन्द्रभागा रोड के पूर्व दिशा में कृषि भूमि पर बने मकानात् गोपाल जी पोरवाल की बगीची चन्द्रभागा नदी की ओर बाई तरफ बने खेतों के मकानों को लेते हुए श्री रमेशचन्द्र पुष्पद से कृषि भूमि आबादी शामिल कर चन्द्रभागा तिराहे से सुरजपोल गेट की ओर मदन विहार कालोनी, चन्द्रगुप्त कालोनी, हिन्दुमल जी का कुआं से आगे सुरजपोल सर्किल चैराहा</p>

	हारून भाई के मकान को लेते हुए उसी लाईन में सुरजपोल अकलेरा आम रोड पर बना मंदिर खटीक समाज तक की सम्पूर्ण आबादी व कृषि भूमियां शामिल कर बनाया गया है।
25	सुरजपोल बाहर अकलेरा रोड पर मंदिर खटीक समाज के पश्चात् मकान लेते हुए रामभरोस खटीक, सामुदायिक भवन से वर्कशाप लोहेट ट्रंक हाउस फर्नीचर दुकान से दीपक नगर में बसी कृषि आबादी को मदन विहार कालोनी की समस्त लाइनें लेते हुए आम रोड पर मकान जगजीत सिंह जसूजा से आगे कृषि भूमि पर बने मकानों को शामिल कर वापस सामुदायिक भवन के सामने गन्दे नालों से लगवा रास्ते से वैशाली नगर में मकान नदीम भाई श्रीमति नजमुन बैवा रफीक अहमद, खलील भाई की कृषि भूमि नाले की समस्त आबादी को शामिल कर व सुरजपोल बाहर अकलेरा रोड पर मंदिर खटीक समाज के पास मकान से मकान भंवरलाल हरिजन, मोहनलाल हरिशचन्द्र मकान कालूलाल हरिजन व आगे मकान देवीलाल जमादार हरिजन तक में अन्दर की सम्पूर्ण हरिजन बस्ती शामिल कर वापस हरिजन बस्ती नाके के पास से बाईं ओर सुरजपोल की तरफ हरिजन बस्ती शामिल कर मस्जिद तक की समस्त आबादी कृषि भूमियां व सुरजपोल गेट बाहर पीडब्ल्यूडी चैकी के पास से रेगर मोहल्ले की ओर अन्दर गली मकान अमरलाल रेगर से नुक्कड़ मकान जगदीश प्रसाद से द्वावरकालाल रेगर व मकान ताराचन्द से बाबा रामदेव मंदिर से आगे मकान बाबा रामदेव गली नुक्कड़ मकान रमेशचन्द रेगर से आगे गली नुक्कड़ सुलभ काम्पलेक्स भूली बाई रेगर से गली नुक्कड़ दक्षिण दिशा रामचन्द्र रेगर से पश्चिम दिशा में गली नुक्कड़ मकान रामचन्द्र रेगर उत्तर दिशा में आगे गली मकान रामदेव मन्दिर आगे पश्चिम दिशा रोडी बाई मेघवाल से आगे दक्षिण दिशा में मकान माताजी मंदिर गली में ठीक सामने लाईन की पश्चिम दिशा में मकान कालूलाल मेघवाल से आगे पश्चिम दिशा घुमाव नुक्कड़ मकान बाद दक्षिण दिशा गली नुक्कड़ मकान मोतीलाल मेघवाल तक की समस्त आबादी को शामिल कर बनाया गया है।
26	मोतीलाल मेघवाल के मकान के बाद से पूर्व दिशा में गली व बाद लाईन मकान सुरैया बेगम, युसुफ कुरैशी व वापस सामने लाईन पश्चिम दिशा मकान रामकल्याण रेगर से उत्तर दिशा मकान से पश्चिम नुक्कड़ मकान जलालुद्दीन अन्सारी व दक्षिण दिशा में खाली मकान से पूर्व में रुफ कुरैशी कमेला मार्केट में उत्तर दिशा की लाईन में मकान खाली बाद मकान सलीम कुरैशी से पूर्व दिशा में मकान बाद मकान आखिर मोहम्मद बाद सुलभ काम्पलेक्स की चतुर सीमा की समस्त गलियों की बस्ती को शामिल कर सुरजपोल कमेला मार्केट सुलभ काम्पलेक्स से आगे चैक के उत्तर दिशा में मकान तमन्ना बानो से उसी लाईन में आगे पूर्व दिशा में मकान पश्चात् मकान इश्हाक कुरैशी, प्रेमचन्द सुमन से वापस दक्षिण दिशा में मकान अब्दुल कुरैशी से बाबू भाई से ठीक सामने गली बाद लाईन में दो मकान बाद मकान कल्लू कसाई कालूराम खटीक गिरिराज बटकारिया से पश्चिम

	<p>दिशा गली कमेला मार्केट में नुक्कड़ मकान बाद मकान मोहनलाल खटीक बाबा रामदेव मंदिर के ठीक सामने गली में पश्चिमी दिशा मकान रामदेव मंदिर उसी लाइन में मेमुना बाई उत्तर दिशा गली नुक्कड़ इस्माईल कुरेशी, अख्तर भाई से दक्षिण से गली नुक्कड़ मकान तीन मकान बाद मकान बानो आया, सोनू प्रजापति से गली लगवा मकान बाबूलाल नावरिया से आगे नुक्कड़ मकान भैरूलाल खटीक से गली पश्चात् मकान खाली मकान पश्चात् मस्जिद तक व सुरजपोल अकलेरा रोड पर शमशान रोड की तरफ कृषि भूमि क्षेत्र शामिल कर चन्द्रभागा पुलिया बाद अकलेरा रोड से मोटर मार्केट योजना, इन्दौर रोड पर माधोपुर की ओर चन्द्रभागा किनारे ईट भट्टे आबादी गोविन्दपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र को छोड़कर वन भूमि नगरपालिका क्षेत्र को लेते हुए ग्राम माधोपुर पुलिया से पूर्व वापस इकलेरा रोड पर चन्द्रभागा किनारे से ऊपर भैरूपुरा कच्ची बस्ती, आवासन मण्डल कालोनी, टोल टैक्स नाका बाईपास नगरपालिका क्षेत्र की राजस्व कृषि भूमि व वन भूमि शामिल कर गोविन्दपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र की राजस्व वन भूमि छोड़ते हुए अकलेरा रोड से चन्द्रभागा पुलिया पुलिस वन व पेट्रोल पम्प को शामिल कर चन्द्रभागा पुलिया से भैरी बाई की बगीची बोहरा बगीची रतन जी मीणा, गिरधर बैरवा, मोहनलाल लोहार, चुंगी नाका सुरजपोल बेरियर के पास की बस्ती कृषि भूमि की आबादी को शामिल कर बनाया गया है।</p>
27	<p>सुरजपोल हरिजन बस्ती पश्चात गंदे नाले के बाद कृषि भूमि का रास्ता के बाद बगीची चांदमल जी,चन्द्रावती कालोनी आबादी व बालचंद माली की बगीची मांगीलाल रोड़जाल नाका चैराहा तक से गायत्री मंदिर की ओर बढ़ने पर नाग महाराज की बगीची शामिल कर उसके सामने बी.एस.एल आफिस शामिल कर धोरे के नीचे की कालोनी कृषि भूमि पर आबादी (राजा कुन्ड) को लेते हुये पंचमुखी मंदिर की ओर तक व राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यानय( अतिरिक्त) भवन शामिल कर सुभाष कालोनी शामिल कर गायत्री मंदिर के चैराहा तक च पंचमुखी रोड गायत्री मंदिर के सामने बसी हुई राजीव गांधी कच्ची बस्ती,(मारूती नगर योजना) रसूल जी की बगीची (ईशाक भाई की बगीची) एवं दादाबाड़ी मंदिर नुक्कड़ तक व नेमीनगर(लालबाग) के पश्चात एक मकान पश्चात कारपेन्टर की दुकान व खाली मकान लेते हुए पश्चिम दिशा की ओर इसी लाइन में अंतिम मकान हरकचंद राजपाल तक व दक्षिण दिशा में रोड पश्चात मकान आशुतोष वर्मा के मकान से पूर्व दिशा की लाइन में दूसरा मकान अरविन्द कुमार गुप्ता सुनील जैन से इसी लाइन में पश्चिम की ओर के मकान को लेते हुये खाली मकान निर्माण व नेमीनगर दक्षिण पूर्व की रिक्त परिसर में दो मकान लेते हुए व दादा बाड़ी के सामने तक व वापस नेमीनगर दो मकान तक रूपचंद,मनोज,ललित सुरेश सुमन पश्चात दादाबाड़ी ,जैन समाज की बगीची शामिल कर अग्रसेन वाटिका महुआ बहार छोपा मंदिर पश्चात मण्डावर वाले का गोदाम खाली कृषि भूमि जैन ट्रांसपोर्ट क0 न्यू पाटन ट्रासर्पोर्ट क0 से कृषि भूमिया आबादी</p>

	<p>शामिल कर गिन्दौर गेट बाहर श्रीमन नारायण की बगीची व कुण्ड के सामने आठो रिपेयर्स दुकान उदयलाल सोनी व एस०बी०बी० जे० लेते हुवे मकान,दुकान व गोदाम लेते हुए लालबाग के कुण्ड से पहले दुकान आवास व विमला भटौरिया, रफीक से मेन रोड पेट्रोल पम्प के सामने एयरटेल आफीस माहेश्वरी इले० रामनाथ किराना से पट्रोल पम्प के सामने दुकान लेते हुए उत्तर दिशा के भवन मकान लेते हुए आरसीएम शोरूम पश्चात मोचियान बगीची से मजिस्जद टेक तक के समस्त मकान आबादी शामिल कर बनाया गया।</p>
28	<p>नेमीनगर (लालबाग ) मे उत्तर दिशा की अंतिम लाइन मस्जिद के पिछे मकान नारायणसिंह से पूर्व दिशा में गली नुक्कड मकान धुरीलाल नागर तक व सामने दक्षिणी लाइन में मकान राजेन्द्र कुमार वैष्णव से दक्षिण दिशा की ओर मस्जिद के पिछे खाली मकान किराये के लिए व वापस ठीक इसी के पिछे की लाइन मे मस्जिद के पिछे मकान जयराम गुर्जर (व्यवस्थापक) से पूर्व दिशा में गली नुक्कड मकान सत्यनारायण शर्मा तक व ठीक सामने की लाइन में खाली प्लाट वर्तमान में मकान पश्चात मकान मनीष मेहता से उसी लाइन के अंतिम छोर मोचियान बगीची के पिछे मकान प्रताप तलुकदार तक व वापस मेन रास्ता पश्चात सामने का रास्ता मकान कल्याण मल जैन बाद पूर्व दिशा में रिक्त भूमि पश्चात उसी लाइन में मकान लेते हुवे मोहनलाल गुप्ता तक व रिक्त भूमि वर्तमान में निर्मित मकान के बाद पिछे की लाइन में सरदारमल जैन से पश्चिम दिशा के मकान से लेते हुए गार्डन से पहले रास्ते से लगवा मकान बाद अपूर्ण निर्मित मकान तक का समुचित क्षेत्र की आबादी शामिल कर आगे गायत्री मंदिर की ओर दादाबाड़ी के पिछे मकान लालचंद जी तिवारी अध्यापक तक व इससे दाहिनी ओर मकान अर्जुनसिंह सिटीक भाई गौरी (ट्रक वाले चाचा का) मकान की आगे के लाइन में नुक्कड महावीर बस वाले तक व इससे दाईनी ओर गायत्री मंदिर तक मे अंतिक्रमण काच्ची बस्ती छोड कर बनाया गया है।</p>
29	<p>ट्रांसपोर्ट नगर योजना की सम्पूर्ण काच्ची बस्ती,अंतिक्रमण मकान व झोपड़ियों को शामिल कर हरिश्चंद कालोनी बाईपास रोड मकान ट्रांसपोर्ट,दुकान बनवारीलाल शर्मा से पश्चिम दिशा पुलिस थाना चैराहा की ओर मेन रोड भोपाल पर शंकर सिधी मकान पश्चात खाली स्थान गली नुक्कड से हरिश्चंद कालोनी की ओर गली नुक्कड डा० दर्शन से पूर्व हरिश्चंद कालोनी की ओर गली नुक्कड चैराहा शिव मंदिर से खाली भूखण्ड दुलीचंद व बृजराजसिंह राजावत अध्यापक से पूर्व दिशा गली नुक्कड मकान कैलाश नारायण जी गुप्ता से बाद मकान के सामने लाइन दूसरा मकान निर्मल पंजाबी की ओर धरमेन्द्र पटेल से पश्चिम दिशा उसी लाइन के मकान लेते हुए शिव मंदिर चैराहा नुक्कड तीसरा मकान बालचंद गुप्ता, रामबाबू यादव, सुशीला जैल से पूर्व दिशा की ओर लाइन के अंतिम नुक्कड मकान अनीस भाई व सामने मकान नंदकिशोर राठौर से आगे पूर्व दिशा गली नुक्कड पर मकान</p>

	शम्मुदीन खान तक से इसी के पिछे मकान मोसीन भाई खली चैक की लाइन पश्चिम दिशा वाली में दक्षिण दिशा से पहले रामनायण कुशवाह से उत्तर दिशा की ओर लाइन के समस्त मकानात शामिल कर गली नुक्कड़ से लेते हए तीसरा मकान रामनारायण नामदेव, नासीर भाई, अब्दुल रउफ इसी लाईन की दक्षिण दिशा के मकानात लेते हुए नंदसिंह हाड़ा की लाइन की ओर की लाइन के मकान को लेते हुए नुक्कड़ मकान कमलेश अग्रवाल तक के ऐरिया की समस्त आबादी मकानात शामिल कर बनाया गया।
30	हरिशचंद कालोनी में कमलेश अग्रवाल के मकान के सामने की लाइन में मकान सत्यनारायण गुप्ता को लेते हुए उत्तर दिशा में रास्ते के पश्चात लाइन में मकान राज0बा03च्च प्रा0वि0, अब्दुल गफूर से गली नुक्कड़ मकान बाद मकान उस्मान बेग से दक्षिण दिशा की लाईन में गली नुक्कड़ मकान जमील भाई से गली नुक्कड़ मकान तक के बाद पिछे की लाईन में मकान दिदार मोहम्मद से गली नुक्कड़ मकान फिरोज कुरेशी तक एवं रास्ते के पश्चात पूर्व दिशा की लाइन में मकान से आगे लगवा मकान मंसूर अहमद गौरी, कदीर भाई, के पश्चात पश्चिम दिशा की लाईन गली नुक्कड़ मकान से नुक्कड़ मकान पन्नालाल राठौर व अगला नुक्कड़ मकान ओमप्रकाश तक आगे पूर्व दिशा नुक्कड़ मकान अब्दुल गफार की लाईन में मकान मुकुटबिहारी सेन से पूर्व दिशा की ओर गली नुक्कड़ मकान अब्दुल गफूर तक व सामने पूर्व दिशा की ओर लालबाग के पीछे की लाइन में मकान जमील अहमद, राधेशम बैरागी से दक्षिण दिशा में दो मकान पश्चात उत्तर दिशा में नक्कड़ मकान पश्चात मकान हफ्सेन बानो, नंदसिंह हाड़ा,, से मकान रामलाल सुमन से सामने लाईन में नंदसिंह हाड़ा से पूर्व दिशा से चैक में मकान मोमिन भाई के लगवा मकान बाद मकान भूरे खां से पूर्व दिशा नुक्कड़ मकान राज030प्रा0वि0 भवन पश्चात मकान अब्दुल गफूर से उत्तर दिशा में दादाबाड़ी की ओर अकलेरा रोड भोपाल बाईपास की ओर जाने वाले रोड पर अंतिम मकान नदीम गौरी तक व महात्मा गांधी योजना में जोधराज हरिजन के पिछे से मकान सलाम भाई फूट वाले से छोटी गलीयों को शामिल कर रजाक भाई हम्माल की लाईन में मकान मदनलाल से बसंतीलाल जैन के मकान तक एवं सामने वाली लाईन में मकान नुक्कड़ मदनलाल जी कन्डकटर से भागीरथ गुप्ता तक व सुलभ काम्पलेक्स की ओर मकान (टेलीफोन एक्चेन्ज) वाले से आगे गली के ऊपर मकान कृपाराम ठेकेदार, (हनुमान मंदिर तक) के समस्त आबादी मकान शामिल करते हुए मकान भूमि शामिल करते हुए बनाया गया।
31	श्री हनुमान मंदिर के साईड बाद रास्ते की लाईन में मकान श्री तारामचंद शर्मा से नीचे मकान राधेश्याम यादव व बाद सुलभ शैचाल तथा पिछ की लाईन में मकान पवन यादव से मकान राधेश्याम प्रेस वाले तक च आगे ताराचद शर्मा के मकान तक व मकान भागीरथ गुप्ता से मकान इन्दर मल पोस्ट मास्टर वाले से मोदी पान वाले को शामिल कर मकान

	<p>नुक्कड़ रजाक कामरेड के मकान तक के मकान के सामने मकान घांसीलाल अद्यापक से मकान गोविन्द सिंह तक बाद मकान मदनलाल ढोली (मीणा का) बाद मकान राज०बा० विद्यालय से मकान कैलाशसिंह टेलीफौन वाले से मकान बाल किशन बाद मकान पटवारी जी तक ,सामने मकान मांगीलाल जी से मकान सोनी जी सेव वाले तक व उसके पास वाला मकान गुड़भाई के मकान तक पिछे गली मे स्थित चाय वाले सोनी जी का मकान व आगे हरिशचंद कालोनी के मकान शामिल कर अद्यापक कालोनी का सम्पूर्ण भाग शामिल कर गोपाल खीची मकान धनश्याम जी शर्मा ग्राम सेवक से आगे बस स्टेप्ड रोड पर रामेश्वर गुप्ता की लाईन शामिल कर मकान रोड के साहारे सहारे मकान शामिल करते हुए मस्जिद टेक के पास मकान मोची तक व टेक वाली मस्जिद के पास मुख्य रोड के मकान मोची से अन्दर की गली से पिछे की ओर मकान मोची से मंदिर बाबा रामदेव को शामिल कर पूर्व सरदार जी के मकान शामिल कर (पिछे का भाग) बनी हुई बागरी बस्ती की झौपडिया/मकान शामिल कर (हरिशचंद कालोनी के मकान छोड़कर) मकान शहीद भाई/अ०लतीफ का मकान के आगे अशोक धोबी से अनवार भाई फुटवाले के मकान रामचन्द्र हरिजन से पूर्न कारपेन्टर के मकान तक के सम्पूर्ण भूमि मकान आबादी शामिल कर बनाया गया है।</p>
32	<p>मकान नाथूलाल बैरागी से कैलाश जी शर्मा व गिरिराज जी शर्मा से मकान विद्यारतन स्वास्थ्य निरीक्षक के पीछे की लाईन के पीछे की गली में श्याम मीणा के मकान से कमलेश खामोरा, रामकिशन मीणा के नुक्कड़ से भैरुलाल यादव का मकान नुक्कड़ मकान भगवती व्यास से शंकरलाल मीणा के मकान को शामिल कर शांति बाई मीणा के मकान से राधेश्याम सोनी के मकान से रामबाबू राठौर तक व यादव के मकान से सलीम भाई टायर वाले की दुकान मेन रोड बसस्टेप्ड नीचे चलते हुए लक्ष्मीनारायण कारपेन्टर, अर्जुन कोली, शकील साईकिल वाले की दुकान से शंभु हरिजन के मकान व शब्बीर भाई कसाई के मकान से होते हुए मोड़लाल राठौर तक के मकान तक का समस्त भाग व पुरुषोत्तम सिंधी किराना दुकान मकान से किशोर यादव की दुकान को लेते हुए ममता लाज के पीछे की यादव बस्ती को शामिल कर भीमराज यादव के मकान से नीम चैक की समस्त आबादी व गूलाब बाई पत्नि श्री रामचन्द्र यादव के मकान तक सामने की लाईन में ओमप्रकाश यादव के मकान से पूर्व दिशा में मदनलाल यादव के मकान के पिछवाडे तक आगे दाखा बाई के मकान को शामिल कर पीछे की गली में आते हुए पेरम बाई यादव से आगे मकान रामलाल बागरी व सीता बाई मालन का मकान से स्व. भैरुलाल गुर्जर का मकान, दरियाव बाई बागरी के मकान तक व वापस दक्षिण की लाईन में हीरालाल ड्राईवर से गली श्री विनय श्री लाज व ममता लाज के अंदर तक के समस्त भाग में भूमि मकान आबादी शामिल कर बनाया गया ।</p>

33	<p>मकान प्रहलाद जी कारीगर से नुक्कड मकान राधेश्याम भीलवाडी वाले से उत्तर दिशा में गली नुक्कड मकान रामरतन कुमावत, दिलीप राठौर तक के मकान के सामने की लाईन में निर्माणाधीन मकान श्री परमेश्वर शर्मा पश्चिम दिशा की ओर नारायण यादव के पीछे का नटो का मकान को लेते हुए बापूलाल पटवारी का गली नुक्कड मकान जगदीश यादव से अगला मकान पन्नालाल छोटलाल यादव से पूर्व दिशा में मकान गुलाम हुसैन तक व गली में जगदीशचंद यादव के मकान तक का समस्त भाग। आबिद भाई झालावाड वाले से गली भावसार मकान महावीर मोची से पूर्व दिशा में बलवीर ढींढसा के पीछे का मकान बालचंद नागर तक वापस चुंगी नाका बसस्टेण्ड के सामने मकान बोहरा से बसस्टेण्ड की ओर मकान भगवानदास गिरधारीलाल सिंधी की गली यादव मोहल्ले की ओर खाली भूमि नगरपालिका मकान किशनलाल लुहार छोटलाल यादव नुक्कड मकान याकूब भाई तक व पुलिस थाना के सामने से भूमि सुजानसिंह जी शौकत अली का लेथ मर्शीन शौरम मंदिर शीतला माता मंदिर से लक्ष्मीनारायण मीणा के मकान से मकान रामसिंह मीणा के बाद मकान श्रीराम इलेक्ट्रिकल्स से भावसार जी की गली में जगदीश जी शर्मा वैध के मकान तक एवं थाने की तरफ नुक्कड चैराहे तक वापस मकान बलवीर सिंह ढीढाल से मकान पूर्व डा. मधुसूदन तक व थाना चैराहा से अकलेरा रोड पर किला पहाड़ी की तरफ महात्मा गांधी कालोनी मकान श्री सुधीर खण्डेलवाल से थाना चैराहा की ओर सम्पूर्ण लाईन लेते हुए कबिर कुटिया तक व कबिर कुटिया से उत्तर की ओर मकान श्री सुरेश जी गुर्जर व सुरेश जी गुर्जर से गली में डा०एन०सी०वर्मा इसी लाईन के मकानात लेते हुवे रमेशचंद जी नाकेदार रास्ता नुक्कड अरविन्द कुमार जी शर्मा से आगे मकान झामकू पेलेस वाले तक का भाग तक के समस्त भूमि मकान आबादी शामिल कर बनाया गया।</p>
34	<p>महात्मा गांधी कालोनी में झामकू पेलेस वाले के ठीक सामने का मकान लेते हुए पश्चिम दिशा की ओर मकान युवराज सिंह हाडा व आगे मकान रिटर्यर्ड पटवारी(चाचा) से मकान गणपति नरसिंह होम से पिछे की ओर मकान प्रतापसिंह जी नाकेदार का पिछवाड़ा से आगे पुराना पंचायत समिति सभा भवन की ओर पश्चिम दिशा लाईन लेते हुए पुराना पंचायत समिति सभा भवन से नौ लकड़ा किला पहाड़ी पर सभा भवन के पिछे अतिक्रमण बस्ती शामिल कर स्मृती वन आनंद धाम मंदिर हनुमान जी मंदिर ठाकूर सा० व पुलिस वायरलेस सेन्टर को लेते हुए एन०एच०१२ चन्द्रभागा पुलिया रेलवे लाईन ग्राम माली पुरा की राजस्व भूमि छोड़ते हुए नगरपालिका क्षेत्र की राजस्व भूमि व वन भूमित शामिल कर पुलिया के पास हनुमान मंदिर लेते हुए झालावाड की ओर कृषि भूमि इंट भट्टे आबादी लेते हुए गिन्दोर की ओर स्मृति वन में दुध तलाई जैन मंदिर गिन्दोर इण्डस्ट्रीज ऐरिया लेते हुए सत्यम पेलेस, पदम आईल मिल खण्डेलवाल जी की फैक्ट्री से वन पाल नाके की ओर झालावाड रोड पर फारूक गौरी महुआ टेक जूनी नरसिया जी करोदी बालाजी बरसाती नाले</p>

	<p>से दक्षिण दिशा की ओर की लाईन ठाकूर सा0 की बावड़ी रामदेव मंदिर कच्ची बस्ती गिन्दौर शमशान भूमि एन0एच012 भोपाल रोड रेलवे लाईन कृषि भूमिया ग्राम मालीपुरा की राजस्व भूमि छोड़ते हुए नगरपालिका क्षेत्र की समस्त राजस्व भूमि तक व एन0एच0 12 गिन्दौर गांव की ओर गड़ी व राम मंदिर की ओर रास्ते का दक्षिणी लाईन लेते हुए राम मंदिर के पिछे से रामप्रसाद जी शर्मा पूर्व पार्षद की गली की दोनों लाईने लेते हुए पाटन झालावाड रोड पर देवीलाल जी राठौर नेताजी व देवीलाल जी शर्मा मकान दुकान तक से वापस पाटन की ओर रण्डछोड जी के मंदिर के सामने की लाईन में करौटी बालाजी तक की सम्पूर्ण आबादी व भूमि मकान आबादी शामिल कर बनाया गया।</p>
35	<p>गिन्दौर गांव तिराया पाटन झालावाड रोड पर श्री देवीलाल शर्मा का मकान दुकान के पश्चात मकान देवीलाल भील भीलों की गुवाड़ी शामिल कर झालावाड की ओर शेष नारायण जी राठौर का मकान गिन्दौर टेक रेलवे लाईन तक रेलवे लाईन के सहारे सहारे एन0एच0 12 गिन्दौर की इण्डस्ट्रीज ऐरिया शामिल कर गड़ी व राम मंदिर के रास्ते पर उत्तरी लाईन राम मंदिर लेते हुए रामप्रसाद जी शर्मा पूर्व पार्षद की गली छोड़ते हुए उनके पिछे देवनारायण का मंदिर व मकानात लेते हुए कहार बस्ती, कुम्हार मोहल्ला की दोनों लाईने शामिल कर वापस गली नुककड मकान उकार जी भील पाटन झालावाड रोड तक की समस्त आबादी तथा गिन्दौर टेक रेलवे अन्डर पास व एन0एच0 12 का अन्डर पास की ओर से कमल तलाई की ओर चन्द्रभागा तक की कृषि भूमि गोविन्दपुरा पंचायत का ग्राम मालीपुरा की कृषि भूमि व नगर परिषद झालावाड की सीमा को छोड़ते हुए नगरपालिका क्षेत्र ग्राम गिन्दौर की राजस्व सीमा एन0एच0 12 भोपाल रोड तक में बसी आबादी कृष्णा नगर, केन्द्रीय विद्यालय, लाल लाजपत सिधानिया विद्या0, राज परिवार भूमि एन0एच0 12 सहकार भवन के सामने रोड की पूर्वी लाईन लेते हुए ग्राम गिन्दौर की ओर खटीक समाज छात्रावास कन्या महाविद्यालय शांती बिहार कालोनी आदर्श विद्या मंदिर शामिल कर रोड पर होन्डा शॉर्म, टी0वी0एस0 शॉर्म महेन्द्रा शॉर्म शामिल कर रेलवे टेक तक का समुचित भाग की आबादी शामिल कर बनाया गया हैं।</p>

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका झालरापाटन

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।